



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264903
CG-DL-E-23072025-264903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3288]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947

No. 3288]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

वस्त्र मंत्रालय
(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

का.आ. 3361(अ).— सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एक सांविधिक निकाय) के समूह "क" अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो सारणी के कॉलम (2) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, संपदा अधिकारी को अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा:

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणी और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
(1)	(2)
श्री जयव्रत कर सहायक निदेशक (सतर्कता एवं विधि) राष्ट्रीय जूट बोर्ड	पटसन भवन का परिसर राष्ट्रीय जूट बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व में, स्ट्रीट नं. 175, सीएफ 6/1, एक्शन एरिया I, न्यू टाउन, उत्तर 24-परगना, कोलकाता 700 156 में स्थित है।

5वीं और 6 वीं मंजिल पटसन भवन स्ट्रीट नं. 175, सीएफ 6/1, एक्शन एरिया। न्यू टाउन कोलकाता 700 156	
---	--

[फा. सं. जे-19/1/2022-पटसन]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**(Jute Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2025

S.O. 3361(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Officer under Column (1) of the Table below, being a Group “A” Officer of National Jute Board (A Statutory Body) to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the Act, within the local limits of his jurisdiction, in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the Table:

TABLE

Designation of the Officer	Category of Public Premises and Local Limit of Jurisdiction
(1)	(2)
Shri Jayabrata Kar Assistant Director (Vigilance & Legal) National Jute Board 5 th & 6 th Floor Patsan Bhawan Street No. 175, CF 6/1, Action Area I New Town, Kolkata 700 156	The premises of Patsan Bhawan wholly owned by National Jute Board located at Street No. 175, CF 6/1, Action Area I, New Town, North 24-Parganas, Kolkata 700 156

[F. NO. J-19/1/2022-Jute Section]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.